**FINANCIAL EXPRESS** 

GE VERNOVA

THURSDAY, AUGUST 21, 2025

GE VERNOVA T&D INDIA LIMITED (Formerly known as GE T&D India Limited)

(CIN: L31102DL1957PLC193993) Registered Office: A-18, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi-110020 Corporate Office: T-5 & T-6, Plot 1-14, Axis House, Jaypee Wishtown, Sector-128 Noida-201304, Uttar Pradesh, India | Ph.: +91 120 5021500

Email id: secretarial.compliance@gevernova.com Website: https://www.gevernova.com/regions/asia/in/gevernova-td-india

#### NOTICE TO SHAREHOLDERS

#### (100 Days Campaign - "Saksham Niveshak")

The Investor Education and Protection Authority, Ministry of Corporate Affairs vide it circular dated 16th July, 2025, launched a 100 Days Campaign titled "Sakshan Niveshak'. This campaign has been launched to assist the shareholders in updating their KYC details to enable them to claim unclaimed dividends which will also result into preventing the transfer of their shares to Investor Education and Protection Fund.

The members of the Company who have not claimed their dividends paid by the Company during financial year 2017-18 to 2024-25 or who have not updated there know your customer (KYC) details or have any issues/queries related to the unpaid/unclaimed dividend, may write at rta@cbmsl.com, Registrar and Share Transfer Agents, CB Management Services (P) Ltd.

The members of the Company are also requested to register/update the KYC details by following the procedure as mentioned below:

a) Members holding shares in physical form, please send duly filled and signed Form ISR-1, Form ISR-2 and Form SH-3 or ISR-3 along with requisite documents as prescribed in respective forms to the Registrar and Share Transfer Agents, CB Management Services (P) Ltd, Unit: GE Vernova T&D India Limited, Rasoi Court. 5" Floor, 20 Sir R N Mukherjee Road, Kolkata, West Bengal, 700001; and

 Members holding shares in demat form, please update KYC details through you. Depository Participant

You can also download aforesaid forms from the website of the Company i.e. https://www.gevernova.com/regions/asia/in/gevernova-td-india.

> For GE Vernova T&D India Limited (Formerly known as GE T&D India Limited)

Place: Noida Date: Aug 20, 2025

Shweta Mehta Company Secretary & Compliance Officer

#### **ZAGGLE PREPAID OCEAN SERVICES LIMITED** CIN: L65999TG2011PLC074795

Regd Off: 15th Floor, Western Block, Vamsiram - Suvarna Durga Tech Park, Nanakramguda Village, Serilingampally Mandal, GHMC Serilingampally Circle, Ranga Reddy, Telangana, 500032.

Tel.: 040 23119049| email id: accounts.hyd@zaggle.in| Website: www.zaggle.in

#### **NOTICE OF 14TH ANNUAL GENERAL MEETING** Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of Zaggle Prepaid

Ocean Services Limited (the Company) will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on Thursday, September 18, 2025 at 3:30 PM IST in compliance with the provisions of the Companies Act. 2013 (Act) and Rules made thereunder, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) read with circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 in conjunction with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 02/2021 dated January 13, 3/ 2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, Circular No: 09/2023 dated September 25, 2023 and Circular No: 09/2024 dated September 19, 2024 (hereinafter collectively referred to as MCA Circulars) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/Pod-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI Circular No SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 dated October 6, 2023, Circular No. SEBI/HO CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 (SEBI Circulars) (collectively referred to as the Circulars), without the physical presence of the members at a common venue to transact the business (es) as set forth in the Notice of the AGM In compliance with the aforesaid Circulars and in accordance with Act, the Notice o

 $|14^{
m th}$  AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 (Annua Report) will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent / Depositories. A letter providing the weblink and QR code for accessing the Annual Report will be sent to those members who have not registered their email address with the Company Registrar & Transfer Agent / Depositories. The Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the website of the

Company at www.zaggle.in, website of KFin Technologies Limited, the Registrar and Transfer Agent (KFintech/RTA) of the Company at https://evoting.kfintech.com and websites of the Stock Exchanges i.e., National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote evoting or casting the vote through the e-voting system during the AGM are provided in the AGM Notice. Members attending through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The facility of casting votes by a Member using an electronic voting system from a

place other than the venue of the AGM (remote e-voting) as well as voting during the AGM will be provided by KFintech. If the e-mail ID of members is already registered with the Company/RTA/Depositories, login details for e-voting are being sent on you registered e-mail ID.

Members who are holding shares in electronic form and has not registered their email addresses are requested to contact their depository participant and register their email addresses as per the procedure prescribed by their depository participant Further members who are holding shares in physical form are requested to submi duly filled and signed Form ISR-1, which can be downloaded from the weblink https: /ir.zaggle.in/wp-content/uploads/2024/03/isr-1.pdf. along with self-attested copy of the PAN Card and other relevant documents, as mandated by SEBI vide its circular dated March 16, 2023 to companies RTA by sending an email a einward.ris@kfintech.com by on or before 5:00 PM IST on August 25, 2025.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the aforesaid Circulars issued from time to time. For Zaggle Prepaid Ocean Services Limited

Date: 20-08-2025 Place: Hyderabad

M.No.: A22232

**Company Secretary and Compliance officer** 



AGM to be held through VC/OAVM Notice is hereby given that the 30" Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of the

Company will be held on Friday, 19th September, 2025 at 12:00 noon through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the business(es) as set out in the Notice of AGM, which is being circulated for convening the AGM

In view of the relaxation granted by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, and other circular(s) issued in this regard and the latest one being General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI vide it's latest circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 ('SEB circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as Circulars) has permitted the holding of the AGMs through VC/ OAVM facility and dispensed with the requirement of physical presence of the members at the meeting. In compliance with the provisions of the Companies Act 2013 ('Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and Circulars, the 30° AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for the F.Y. 2024-25 will be sent to all the Shareholders whose e-mail ids are already registered with the Company/Depository Participants/Registrar & Share Transfer Agent (RTA). Further, pursuant to guiation 36(1)(b) of Listing Regulations, a letter providing the web-link for accessing the Notici and Annual Report, including the exact path, will be sent to those Members who have not registered the email address with the Company/Depository Participants/RTA. Shareholders may note that the Notice of AGM and Annual Report for the F.Y. 2024-25 will also be available on the Company's website i.e. www.uttamsugar.in and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com & National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com. The Company will also provide physical copies of the Notice and Annual Report to members upon their request. Members may send their requests to the Company at investorrelation@uttamsugar.in. Shareholders can attend and participate in the AGM through VCIOAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM Shareholders attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per section 103 of the Companies Act, 2013.

Manner of voting In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting facility to all its Shareholders to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ voting through e-voting system during the AGM is being provided

Manner of registering/updating e-mail address

In case members holding shares in Physical Mode and who have not registered/updated their email addresses with the Company/ RTA are requested to register/update their email addresses by writing to the company at investorrelation@uttamsugar.in and to RTA at delhi@in.mpms.mufg.com along with copy of signed request letter mentioning the name, folio no., address of the member, Form ISR-1 (available on the website of the company), self-attested copy of PAN Card and Self-attested copy of Aadhaar Card / Driving License/Voter ID/Passport etc.

Member holding shares in DEMAT Mode are requested to register/update their email addresses with their respective Depository Participants.

Dividend The Members may please note that Board of Directors have recommended a Final Dividend at

Date: 21" August, 2025

Place: Noida

the rate of 25% [i.e., @Rs.2.50 per Equity Share] of Face Value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) for the Financial Year ended 31" March, 2025, subject to the approval of the Shareholders at the 30" AGM. The Dividend, if declared, will be paid through Reserve Bank approved electronic mode to those Shareholders who have updated their bank account details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participants. The Record Date for determining the names of members eligible for Final Dividend is Friday, 12" September, 2025. In case members have not registered/updated their bank account details, please register/update

the details in your DEMAT account, as per the process advised by your respective DP. For Further information/clarification on the above matter, Members can write to the

Company/RTA of the Company at their respective address/ e-mail. By Order of the Board of Directors of the Company

> For Uttam Sugar Mills Limited (RAJESH GARG)

Company Secretary & Compliance Officer (Membership No. FCS-5841)

Place: New Delhi

Date: 20.08.2025



#### MULTIBASE INDIA LIMITED Registered Office: 74/5-6, Daman Industrial Estate, Kadaiya,

Nani Daman-396210 (UT): Tel .: +91 260 6614 400 Fax: +91 260 2221 578 Email: compliance.officer@multibaseindia.com; Website: www.multibaseindia.com • CIN: L01122DD1991PLC002959

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Dear Shareholders, Subject: Launch of "Saksham Niveshak" Campaign - Action Required for Unclaimed Dividends and KYC Updates

Pursuant to Investor Education and Protection Authority (IEPFA), Ministry of Corporate Affairs (MCA) letter dated 16th July 2025, Multibase India Limited are pleased to inform you of the commencement of a 100-day special outreach initiative titled "Saksham Niveshak", starting from 28th July 2025 to 6th November 2025. This campaign is being undertaken to facilitate shareholders in updating

 Know Your Customer (KYC) details including: Bank account mandates

Nominee registration

Contact information (email, mobile number, address)

This campaign is also being undertaken to facilitate the shareholders to claim their Unpaid / Unclaimed Dividends for any financial year in order to prevent their dividend amount and shares being transferred to IEPFA.

Shareholders who have not claimed their dividends or have incomplete KYC records are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) at the

MUFG Intime India Private Limited, C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 Phone: 8108116767 https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/Service Request.html

Additionally, shareholders are encouraged to register and track their requests through the SWAYAM portal: https://swayam.in.mpms.mufg.com Important Advisory

Please note that as per applicable provisions, if dividends remain unclaimed for a period of seven consecutive years, the dividend amounts, and corresponding base shares (if available) are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) We urge all shareholders to take prompt action during the campaign period to

safeguard their entitlements and ensure compliance with statutory requirements. For Multibase India Limited Parmy Kamani

Date: 20.08.2025 Place: Mumbai

Company Secretary & Compliance officer

#### **INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST** (EOI) FOR ASSIGNMENT OF DEBT

Asset Reconstruction Company (India) Limited (acting as trustee of Arcil-SBPS-008-III Trust) (hereinafter referred to as "Arcil") being a secured creditor vide Assignment Agreement dated September 28, 2021, under the provisions of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("SARFAESI Act, 2002), invites all eligible Asset Reconstruction Companies ("Party"/ "Bidder") under the extant Reserve Bank of India guidelines for sale of the below mentioned Non-Performing Asset. Detailed Terms and Conditions of the process are captured in the Process Document which will be shared with the eligible bidders upon receipt of the EOI.

The sale will be on 100% cash basis and the auction shall be through "Swiss Challenge" Process" on "As is where is". "As is what is" "Whatever there is" and "Without recourse" basis, under the SARFAESI Act. 2002, based on an existing offer. Brief details of the Financial Asset are given below:

			(Rs in crore
Sr. No.	Name of Borrower	Anchor Bid*	EMD
1.	Tarun Realtors Private Limited	71.98	7.2
Details provided in Bid Process Document, Reserve Price shall be at a mark-up of 109			

of the Anchor Bid. The eligible bidders who wish to participate in the said Swiss Challenge process to acquire Arcil's portion of debt in the above mentioned account shall submit their bids to Arcil in such form and manner as may be specified by Arcil in the bid process documents. The anticipated timelines for the auction process are as detailed below:

Sr. No.	Activity	Indicative Date	
1.	Advertisement Date / Expression of Interest (" <b>EOI</b> ") start date	August 21, 2025	
2.	Last Date of Submission of EOI along with other documents	On or before August 26, 2025 – before 6 pm	
3.	Last date for accessing data room for due diligence by eligible bidders (eligible participants who have submitted EOI along with all required documents to the satisfaction of Arcil)	September 05, 2025 – before 6 pm	
4.	Submission of binding bids by email (Password Protected only) along with the EMD or physical bids to reach Arcil's office	September 10, 2025 – before 1 pm	
5.	Opening of bids	September 10, 2025 – Post 3 pm onwards	
6.	Date of Swiss Challenge (through E-Auction platform. Timings will be shared separately)	September 11, 2025	
7.	Exercise of right of first refusal ("ROFR") by Anchor Bidder within one day	September 12, 2025	
8.	Declaration of Successful Bidder	September 12, 2025	
9.	Execution of Assignment Agreement	As may be mutually agreed between Arcil in discussions with the Successful Bidder.	
In case of any query or any clarification, you may contact the following authorised			

representatives: Praful Kalika (praful.kalika@arcil.co.in); Angira Bhattacharjee (angira. bhattachariee@arcil.co.in) Please note that sale of Non-Performing Asset shall be subject to the terms and

conditions as stated in the bid process document and Arcil reserves the right to cancel/ modify the terms of this sale at any time.

> For Asset Reconstruction Company (India) Limited As trustee of Arcil-SBPS-008-III-Trust

## E-SERVICES

Hari Priya

#### **BLS E-SERVICES LIMITED** (CIN: L74999DL2016PLC298207)

Regd. Office: G-4B-1, Extension, Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi-110044, Delhi, India

Corp. Office: Plot No 865, Udyog Vihar, Phase V, Gurgaon-122016, Haryana, India, Tel.: 91-11-45795002, Email: cs@blseservices.com, Website: www.blseservices.com

NOTICE OF 9<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING Notice is hereby given that

The 9th Annual General Meeting (the AGM) of the members of BLS E-Services Limited ("the Company") will be held on Monday, September 15, 2025 at 03:00 P.M. (IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility to transact the business as stated in the Notice of the AGM pursuant to the Companies Act, 2013 and various circular issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, from time to time. All the Members are hereby informed that: -

The Annual Report along with Notice of the AGM for financial year ended March 31 2025 and remote e-voting and e-voting at AGM details have been sent in electronic mode on Wednesday, August 20, 2025 to all the members whose e-mail are registered with RTA and Depositories as on August 08, 2025. For those shareholders whose email IDs are not registered, a letter providing a weblink and QR Code for accessing the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 has been sent to those shareholders via post.

The Annual Report along with Notice of the AGM is also available on the website of the Company www.blseservices.com, website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. at <a href="https://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and <a href="https://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> respectively and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com

Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder. the Company is pleased to provide Remote e-voting and e-voting facility in the AGM to the members holding shares either in physical form or dematerialized form to cast their vote on the business as set forth in the Notice of the AGM.

The Cut-off date for the purpose of e-voting through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) is Monday, September 08, 2025. The remote e-voting period commences on Thursday, September 11, 2025 from 09:00 a.m. (IST) and ends on Sunday, September 14, 2025 at 05:00 pm. (IST). Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on Sunday, September 14, 2025. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The record date for the purpose of determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for FY 2024-25 is September 8, 2025.

In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of Notice of AGM but on or before the cut-off date i.e. September 08, 2025, may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com for obtaining login ID and the password. Further, if the Member is already registered with CDSL remote e-voting platform, then he can use existing User ID and Password for casting the vote through remote e-

The manner of e-voting remotely for members holding shares in dematerialized form, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their vote again.

Members are requested to read the instructions pertaining to joining the AGM. manner of casting vote through remote e-voting, e-voting during the AGM and attending the AGM through VC/OVAM as mentioned in the Notice of the AGM, In case you have any queries or issues regarding the E-voting, you may refer the

Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or all grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai -400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no-1800 21 09911. By the order of Board of Directors of

**BLS E- Services Limited** Sd/-

Neha Baid

Company Secretary & Compliance Officer ICSI Membership No. : ACS 33753 SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED CIN: L65929TG2003PLC040648

Registered Office: Galaxy, Wing B, 16th Floor, Plot No.1, Sy No 83/1, Hyderabad Knowledge City, TSIIC, Raidurg Panmaktha, Hyderabad, Rangareddi, Telangana-500081. Phone: +9140-45474750

Email: shareholders@spandanasphoorty.com | Website: www.spandanasphoorty.com NOTICE OF 22<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 22nd Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Spandana Sphoorty Financial Limited (the 'Company') is scheduled to be held on Tuesday, September 16, 2025, at 03.00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time (the latest circular being General Circular No. 09/2024 dated September 19 2024) ('MCA Circular') and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 ('SEBI Circular') (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars'), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. In compliance with the said Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report

for FY 2024-25 ('Annual Report') will be sent in due course only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/ Registrar and Transfer agent ('RTA') and Depository Participants ('DP'). The Notice of the AGM and Annual Report will also be made available on the Company's website at www.spandanasphoorty.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com The Company will be providing the remote e-voting facility before the AGM and e-voting facility at the AGM to its Members to exercise their right to vote on all the resolutions as set out in the Notice and proposed to be transacted at the AGM by electronic means. The facility of casting votes will be provided by Kfin Technologies Limited. The Members who have not registered/updated their email ids for receiving Notice of the

AGM. Annual Report and other communications through electronic mode, please reach out to the respective DP(s), where the demat account is being held. The Members who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/

participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. Detailed process and manner of remote e-voting, e-voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of the AGM.

For Spandana Sphoorty Financial Limited

Place: Hyderabad Date: August 20, 2025 Vinay Prakash Tripathi **Company Secretary** 

## MobiKwik

#### ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED Regd. Office: Unit No. 102, 1st Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road.

Sector-53, Gurugram, Haryana-122003, India. Tel: +91 (124) 490-3344, CIN: L64201HR2008PLC053766; Website: www.mobikwik.com, Email: cs@mobikwik.com NOTICE OF THE 17th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 17" Annual General Meeting ('AGM') of the members of One MobiKwik Systems Limited ('Company') is scheduled to be held on Tuesday, September 16, 2025 at 03:30 p.m. (IST) through video conferencing ('VC') and other audio-visual means ('OAVM') to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM ('Notice'), without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI from time to time. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM facility only. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section

103 of the Companies Act. The facility for appointment of proxies by the members will not be available since the AGM is being held through VC/OAVM.

n Compliance with the applicable statutory compliances, the dispatch of the Notice of 17" AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 have been completed on Wednesday, August 20, 2025 through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA")/ Depositories/ Depository Participants ("DPs"). These documents are also available on the website of the Company https://www.mobikwik.com/ir/meetings/agm-2025, Stock Exchanges i.e. BSE Limited; www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited; www. Securities Depository Limited ('NSDL'); https://www.evoting.nsdi.com. The Company has arranged e-voting facility ('remote e-voting' and 'e-voting during the AGM') for all its

members holding shares in physical or demat mode, as on the Cut-off date i.e. September 10, 2025 through the e-voting platform of NSDL in respect of the resolutions to be passed at the AGM, Only members holding shares of the Company as on the above-mentioned Cut-off date shall be entitled to avail the e-voting facility. Voting rights (for e-voting facility) shall be reckoned on the paid-up value of the shares registered in the name of the Member(s) of the Company as on the Cut-off date. All eligible Members are requested to note following schedule of e-voting facility:

Particulars	Date		
Date of completion of dispatch of Notice and Annual Report for year 2024-25 through electronic mode  Date and time of commencement of remote e-Voting	August 20, 2025		
Date and time of commencement of remote e-Voting	September 13, 2025 at 09:00 A.M (IST)		
Date and time of end of remote e-Voting	September 15, 2025 at 05:00 P.M. (IST		
Date of e-voting during AGM	September 16, 2025 at 03:30 P.M (IST)		
Date of declaration of result	On or before September 17, 2025		
All eligible members and persons who become members of	of the Company after the dispatch of the		

Notice may follow the instructions for e-voting facility, manner of attending/ joining AGM through VC OAVM and registering/updating e-mail address of members as mentioned in the Notice of AGM. The Members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again during the AGM. Vote once casted by the Member shall not be allowed to be changed subsequently. Please note that remote e-voting shall be disabled by the NSDL beyond the date and time specified in the above schedule. Members having any query/ grievance may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for the

Members who need assistance before or during the AGM and e-voting user manual for members available on the website www.evoting.nsdl.com under the 'Downloads Section'. You can also contact NSDL on toll free number 022-4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com who will address the query/grievances related to electronic voting. For One MobiKwik Systems Limited

Date: August 21, 2025 Place: Gurugram

Ankita Sharma Company Secretary and Compliance Officer

Sd/-

# Cignití

#### Cigniti Technologies Limited CIN: L72200HR1998PLC129027

Regd. Office: Plot No. 13, Udyog Vihar, Phase-IV, Sector-18. Palam Road, Gurugram - 122015, Haryana, India Ph: 0124-4627837

Email: CT Company.Secretary@coforge.com, Website: www.cigniti.com

NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Cigniti Technologies Limited ('the Company') for financial year 2024-25 will be held

on Thursday, September 25, 2025 at 05:00 PM through Video Conference facility ("VC")/or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and the latest Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and and relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India, latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 ("SEBI Circulars") and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made there under.

The Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 along with Notice convening the AGM will be sent in due course only through email to all those Members whose email address is registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/Depository Participants ('DP'), in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars. The aforesaid documents will also be made available on the Company's website https://Cigniti.com. on the website of the Stock Exchanges, viz. BSE Limited (https://www.bseindia.com/) and National Stock Exchange of India Limited (https://www.nseindia.com/) and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") https://www.evotingindia.com/

The instruction for attending the meeting through VC/OAVM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote at the AGM through e-voting is provided in the Notice convening the AGM. The Notice also contains the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their email address either with the Company or their respective DP. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

The members holding shares in physical form are requested to consider converting their physical shares into dematerialized and eliminate all risks associated with the physical shares.

#### Procedure for registration of email addresses and bank details: Members whose email IDs are not registered, are requested to register their email id's

by contacting (i) relevant Depository Participant (in case of dematerialised shares) or (ii) the Company at CT\_Company.Secretary@coforge.com or Aarthi Consultants Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") at info@aarthiconsultants.com. (in case of physical shares) by sending a signed request letter in form ISR-1 (available on the website of the Company https://www.cigniti.com/) along with self-attested copy of PAN Card and address proof and such other documents as provided in the said form.

Further, members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc. to their DP in case the shares are held by them in electronic form and to Aarthi Consultants Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") in case the shares are held by them in physical form in the prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/ CIR/2021/687 dated December 14, 2021 read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 dated June 23, 2025 and other relevant circulars issued from time to time.

In case of any query, members may write to Investor Services at CT\_Company.Secretary@coforge.com or info@aarthiconsultants.com Note: The Company has appointed M/s. MUFG Intime India Private Limited as its

Registrar & Share Transfer Agent with effect from November 15, 2025 in place of Aarthi Consultants Private Limited, All stakeholders are requested to contact Aarthi Consultants Private Limited for any correspondence till November 15, 2025 and post that to MUFG Intime India Private Limited. For Cigniti Technologies Limited

> Naga Vasudha Company Secretary ACS:23711



## IIRM Holdings India Limited

(Formerly known as Sudev Industries Limited) CIN: L70200TS1992PLC189999

Registered Office: 5th Floor, Ashoka My Home Chambers, Sindhi Colony, SP Road, Begumpet, Secunderabad, Hyderabad, Telangana, India, 500003 Website: www.iirmholdings.in Email: cs@iirmholdings.in Telephone: +91 8447772518

INFORMATION REGARDING 32" ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM") Notice is hereby given that the 32" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

IIRM Holdings India Limited ("the Company") is scheduled to be held on Saturday,

September 27,2025 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules made thereunder read with General Circular no. 9/2024 dated September 19,2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide circular no. SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIC/2024/133 dated October 03, 2024 ("SEBI Circular") and other applicable circulars and notifications issued (including any statutory modifications or re-enactments thereof for the time being in force and as amended from time to time), Companies are permitted to hold General Meetings through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. In Compliance with the abovementioned circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2024-25 will be sent only through electronic mode to those Members whose

e-mail address is registered with the Company/ Registrar and Transfer Agent / Depository Participants / Depositories. Members may note that the Notice and Annual Report 2024-25 will also be available on the Company's website <a href="https://www.iirmholdings.in/">https://www.iirmholdings.in/</a>, website of the Stock Exchange i.e., BSE Limited https://www.bseindia.com/, and on the website of National Securities Depository Limited https://www.evotingnsdl.com/. The Company shall send physical copy of the Annual Report 2024-25 to the members who specifically request for the same by sending an email at cs@iirmholdings.in.

In compliance with Section 108 of the Act, read with the corresponding rules. Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of SEBI circulars, the Company is providing remote e-voting facility to its members to enable them to cast their votes electronically through the facility provided by Nationa Securities Depository Limited (NSDL), Additionally, the facility for voting during the AGM will also be made available. Members present in the AGM through VC/OAVM and who have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. Detailed instructions for remote e-voting, e-voting during the AGM and attending the AGM through VC/ OAVM will be provided in the Notice of the AGM.

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same

in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's RTA, Beetal Financial & Computer Services Private Limited, Address: Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi – 110062, E-mail: beetalrta@gmail.com Members holding shares in physical mode are requested to note that SEBI vide its circulars SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021

SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 and SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181 dated November 17,2023 has simplified the process for investor service requests. SEBI has made it mandatory for holders of physical securities to furnish PAN, bank account details, contact details, specimen signature and nomination for their corresponding folio numbers. SEBI has notified forms for the purpose, as detailed below: Description

SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/687 dated December 14, 2021 and

PO/9700000000000	AND MEDICAL PROPERTY OF THE PR		
Form ISR-1	Request for registering PAN, bank account details, signature, mobile, email-id, address or changes / up-dation thereof		
Form ISR-2 Confirmation of Signature of securities holder by the B			
Form SH-13 Nomination form			
Form ISR-3 Declaration for Nomination opt-out			
Form SH- 14	Change in Nomination		
	rms can be downloaded from the Company's website a noldings in/investor/shareholders-quide/. Accordingly, members are		

requested to make service requests / update their records by submitting a duly filled and signed forms, along with the related proofs listed in the forms to Company's RTA, Beetal Financial & Computer Services Private Limited, Address: Beetal House, 3" Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi - 110062, E-mail: beetalrta@gmail.com. For IIRM Holdings India Limited

(formerly known as Sudev Industries Limited)

Naveen Kumar Place: Hyderabad Company Secretary and Compliance Officer Date: August 20, 2025 Membership No.: A51220

#### FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED CIN: L38210DL1985PLC020853

Regd. Office: Unit 204, Plaza P-3, Central Square, 20 Manohar Lal Khurana Marg. Bara Hindu Rao, Sadar Bazar, Delhi, India - 110006 E-Mail: sns.prop.ltd@gmail.com, Tel. No. +91 7992313157 & Website: www.snsind.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UPTO 3.90.000 (THREE LAKH NINETY THOUSAND ONLY)

EQUITY SHARES FROM THE SHAREHOLDERS OF SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED. (HEREINAFTER REFERRED TO AS ("SNS/"TARGET COMPANY"/"TC") BY MS. SHWETA KALRA ("ACQUIRER 1") AND MS. RACHNA KALRA ("ACQUIRER 2") (HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS"). PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH REGULATION 3(1) AND REGULATION 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS"). This dispatchment confirmation of the letter of offer advertisement ("Letter of Offer Dispatch

Confirmation Advertisement") is being issued by Fintellectual Corporate Advisors Private Limited ("Manager to the offer") on behalf of the acquirers and the said should be read in conjunction with the: a) Public Announcement dated Wednesday, April 23, 2025 ("Public Announcement")

b) Detailed Public Statement dated Tuesday, April 29, 2025, which was published on Wednesday, April 30, 2025, in the newspapers, namely being Financial Express (English),

Jansatta (Hindi) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) ("Newspapers") ("Detailed Public Draft letter of offer dated Tuesday, May 06, 2025 ("Draft Letter of Offer"); d) Letter of offer dated Tuesday, August 12, 2025, along with the form of Acceptances-cum-

Acknowledgement and Form No. SH-4 Securities Transfer Form ("Letter of Otter"); and The term used in this letter of offer Dispatch Confirmation Advertisement have the same meaning

assigned to them in the offer documents unless otherwise specified. Completion of Dispatch of the Letter of Offer The dispatch of the letter of offer to public shareholders as on identified date being Monday, August 11, 2025, for the purpose of this offer, has been completed on Tuesday, August 19, 2025, the details of which has been summarized herewith as below:

No. of Public

Date of

**Particulars** Mode of Dispatch Sent/Dispatch Share Holders Letter of offer(Through Demat 19.08.2025 Letter of offer (to non-email Registered Post 6377 19.08.2025 and all physical cases) 2) Availability of letter of offer

 a) Public Shareholder may access the letter of offer on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. MSEI at www.msei.in, Registrar at www.skylinerta.com and Manager at www.fintellectualadvisors.com

b) In case of non-receipt of the letter of offer, public shareholders, including those who have acquired the equity shares after identified date. If they so desire, may download the letter of offer from the website indicated above or obtain a copy of the same from the Manager or the REGISTRAR TO THE OFFER

FINTELLECTUAL Skyline Fintellectual Corporate Advisors Private Skyline Financial Services Private Limited SEBI Registration No.: INR000003241 Rend. Off.: D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial SEBI Registration No.: INM000012944 Corporate Off.: B-20, Second Floor, Sector 1, Area, Phase -I, New Delhi - 110020 Tel No.: 011-40450193-97 Noida 201301 Tel No.: +91-0120-4266080; Contact Person: Mr. Amit Puri Contact Person: Mr. Anuj Rana -mail: info@fintellectualadvisors.com Email id.: ipo@skylinerta.com Website: - www.fintellectualadvisors.com Website: www.skylinerta.com

MANAGER TO THE OFFER

3) Schedule of Activities for the purpose of this offer: Kindly note the schedule of the major activities set forth below:

Tentative Schedule of Activities Actual Schedule of Activities (Day and Date) ast date of publication in the Newspapers of Thursday, 21 August 2025 Recommendation of the Independent director committee of the Target Company shall give its recommendation Last date for revising the Offer Price/ Offer Size Friday, 22 August 2025 Monday, 25 August 2025 Advertisement of Schedule of Activities for Open Offer, tatus of statutory and other approvals in newspaper Date of commencement of tendering period (Offer Opening Tuesday, 26 August 2025 Wednesday, 10 September 2025 Date of expiry of tendering period (Offer Closing Date) Wednesday, 24 September 2025 Date by which all requirements including payment of consideration would be completed

### 4) Other information:

Validity: Permanent

Date: 20.08.2025

Place: Noida

New Delhi

a) The details relating to the procedure for tendering the Equity shares are more particularly set

b) The Letter of offer Dispatch confirmation Advertisement shall also be available and accessible

on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, MSEI at www.msei.in, and Manager at www.fintellectualadvisors.com Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

FINTELLECTUAL

Fintellectual Corporate Advisors Private Limited Corporate Off.: 8-20, Second Floor, Sector 1, Noida 201301, Tel No.: +91-0120-4266080; E-mail: info@fintellectualadvisors.com Website: - www.fintellectualadvisors.com

Contact Person: Mr. Amit Puri SEBI Registration No.: INM000012944 CIN: U74999DL2021PTC377748

Shweta Kalra Rachna Kalra (Acquirer 1) (Acquirer 2)

epaper.financialexpress.com

Date: August 20, 2025

Place: Hyderabad

## जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, फूंका पुतला

संवाददाता। प्रदेश कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार की उत्तराखण्ड विरोधी नीति के खिलाफ राज्यभर में जिला मुख्यालयों पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून मुख्यालय में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ऐस्लेहॉल चौक पर राज्य की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉ0 हरक सिंह रावत एवं प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सर्यकान्त धस्माना ने भी प्रतिभाग किया। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य की प्रस्तावित राजधानी गैरसैण में चल रहे वर्षाकालीन सत्र के दौरान धमी सरकार द्वारा विपक्ष की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है तथा विपक्ष द्वारा उठाये जा रहे जनहित के मुद्दों पर राज्य की धामी सरकार चर्चा कराने से बच रही है

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता।

भारत के सबसे भरोसेमंद निजी जीवन

बीमा प्रदाताओं में से एक, एसबीआई

लाइफ इंश्योरेंस ने अपने नवीनतम

सुरक्षा प्रोडक्ट-एसबीआई लाइफ-

स्मार्ट शील्ड प्लस को लॉन्च करने की

घोषणा की है। यह व्यक्तिगत, नॉन-

लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, शुद्ध

जोखिम जीवन बीमा उत्पाद है, जिसे आज के उपभोक्ताओं की बदलती

सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। भविष्य-

उन्पुख दृष्टिकोण के साथ, यह प्लान

जीवन के विभिन्न अहम पड़ावों पर

बढ़ती जिम्मेदारियों के अनुसार लचीला

और स्केलेबल टर्म इंश्योरेंस प्रदान

करता है। एसबीआई लाइफ-स्मार्ट

शील्ड प्लस को इस तरह डिज़ाइन

किया गया है कि लंबी अवधि के सुरक्षा

प्रबंधन को आसान और सार्थक बनाया

जा सके। इसमें तीन विकल्प उपलब्ध

हैं-लेवल कवर, इंक्रीसिंग कवर, और

लेवल कवर विद फ्यूचर प्रूफिंग

बेनिफिट-जिससे व्यक्ति अपने जीवन



जो कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं

महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राज्य की भाजपा सरकार

सकते हैं। इंक्रीसिंग कवर बेनिफिट

विकल्प के तहत सम एश्योर्ड हर साल

5 प्रतिशत (सिंपल रेट) से बढ़ता है,

अधिकतम मूल सम एश्योर्ड के 200

प्रतिशत तक। लेवल विद फ्यूचर प्रूफिंग

बेनिफिट विकल्प में पॉलिसीधारक को

शादी, संतान जन्म या घर खरीद जैसे

बडे जीवन-घटनाओं पर बिना अतिरिक्त

मेडिकल अंडरराइटिंग के सम एश्योर्ड

बढ़ाने की सुविधा मिलती है।यह प्रोडक्ट नामांकित को मृत्यु लाभ का

भुगतान एक मुश्त, किस्तों या दोनों के

संयोजन में करने का विकल्प देता है।

इस पेशकश को वैकल्पिक सुविधाओं

द्वारा और भी बेहतर बनाया गया है,

जिसमें बेटर हाफ बेनिफिट शामिल है,

जिसके तहत जीवन बीमित के निधन के

बाद जीवित जीवनसाथी को 25 लाख

या पॉलिसी प्रारंभ में चुने गए सम एश्योर्ड

का 50 प्रतिशत (जो कम हो) का

अतिरिक्त जीवन कवर मिलता है। इस

स्थिति में जीवन बीमित का मृत्यु लाभ

भृगतान किया जाता है, आगे का

प्रीमियम माफ हो जाता है और

कवर को वित्तीय और व्यक्तिगत जीवनसाथी का कवर शुरू होकर 60

एसबीआई लाइफ ने लॉन्च किया

'एसबीआई लाइफ-स्मार्ट शील्ड प्लस'

आन्दोलन की भावना की पूरी तरह अनदेखी करने का भ आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार राज्य चर्चा से बचना चाहती है जो कार्यप्रणाली को राज्य निर्माण

की प्रस्तावित राजधानी गैरसैण में चल रहे वर्षाकालीन सत्र में विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाये जा रहे मुद्दों पर

उत्तराखण्ड राज्य के प्रति भाजपा की नीयत और नीतियों को दर्शाता है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार की

बताते हुए गैरसैण राजधानी के मामले में भी भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाये हैं।

कांग्रेसजनों ने कहा कि भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली से न केवल राज्य निर्माण की भावनायें आहत हुई हैं अपितु राज्य निर्माण आन्दोलन के शहीदों और आन्दोलनकारियों का भी अपमान हुआ है। गैरसैण राज्य निर्माण आन्दोलन की आत्मा कही जाती है। जिसका सम्मान करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा जनभावना को देखते हुए गैरसैण में विधानसभा सत्र आहुत करने की शुरूआत की गई थी परन्तु भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार सदन में विपक्षी सदस्यों के द्वारा उठाये जा रहे जनसरोकार के मामलों को अनदेखा किया जा रहा है वह स्वस्थ लोकतंत्र की परम्परा के भी विपरीत है जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है।

## मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने सीएम से की भेंट



संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने भेंट की। उन्होंने भराड़ीसैंण से सारकोट के लिए सड़क की स्वीकृति और कार्य शुरू होने और विगत में सारकोट

लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त

सारकोट की ग्राम प्रधान ने इस अवसर पर गांव में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था, गांव से जुड़ने वाले आंतरिक मार्गों की अच्छी व्यवस्था, गांव की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के में हुए विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वरोजगार से जोड़ने, गांव के

गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किया

लेकिन विपक्ष ने प्रदेश की जनता के हितों

को तिलांजिल देकर सदन को नहीं चलने

दिया। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष

के अमर्यादित व्यवहार, लगातार हंगामे

एवं अवरोध खड़े करने से उसने जन

आकांक्षाओं का गला घोटने का काम

किया है उसके इस कृत्य से असमय

सत्रावसान हुआ नतीजतन प्रश्नकाल

हंगामे की भेंट चढ़ गया। उन्होंने कहा कि

विपक्ष स्वयं नहीं चहाता की जनता से जुड़े

कल्याणकारी मृद्दों पर सदन में चर्चा हो।

तिलांजलि देकर केवल अपना राजनैतिक

हित साधना चाह रहा था। सदन के

बाहर और अंदर विपक्ष ने जिस प्रकार

का आचरण किया उसे प्रदेश की जनता

कभी माफ नहीं करेगी।

वह जनता के सरोकारों को

रास्तों में सोलर लाइट की व्यवस्था करने और गांव से सबसे निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में बाल रोग और महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का उन्होंने अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारकोट की ग्राम प्रधान को बधाई देते हुए कहा कि अवगत कराई गई सभी समस्यायों का उचित समाधान

किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा संबंधित विभागीय कि अधिकारियों और जिला प्रशासन को इन सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य गांवों के लिए भी सारकोट आदर्श बनेगा। इस अवसर पर अपर सचिव श्री मनमोहन मैनाली

#### जरूरतों के अनुरूप समायोजित कर वर्ष की आयु तक जारी रहता है। विपक्ष ने जन आकांक्षाओं का गला घोंटाः महाराज



देहरादन/गैरसैंण. वीर अर्जन संवाददाता। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण. जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया था। लेकिन विपक्ष ने हंगामे और सदन की

कार्यवाही में बार अवरोध खडे कर सदन की मर्यादा को तार-तार करने के साथ-साथ विपक्ष की भीमका निभाने में भी

प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सदन में विपक्ष का जो आचरण रहा है वह घोर निंदनीय था।

विपक्ष कानन व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा चाहता था, लेकिन खुद नियम-कानून का पालन करने को तैयार नहीं था। निकाय चनाव और हाल ही में संपन्न राज्य के 10 पंचायत निकायों के चुनावों में भाजपा को मिले जनादेश से विपक्ष निराशा और हताशा में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पहाड़ के हितों एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप मानसून के दौरान

#### सीजीसी झंजेडी अब बना सीजीसी विश्वविद्यालय मोहाली जागरूकता सेमिनार

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। मिलकर बनाए गए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पर क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज़, झंजेडी ने आधिकारिक रूप से सीजीसी विश्वविद्यालय, मोहाली के रूप में अपने रूपांतरण की घोषणा की हैं। यह घोषणा जे.डब्ल्यू. मैरियट, चंडीगढ़ में एक प्रभावशाली प्रेस सम्मेलन के दौरान की गई, जो संस्था की 25 वर्षों से अधिक की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है। एक कॉलेज से एक तकनीक-आधारित, स्वायत्त विश्वविद्यालय बनने तक का यह सफर भविष्य की पीढी को आकार देने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन उद्योग-एकीकृत शिक्षा की दिशा में एक साहसी रणनीतिक पहल है। सीजीसी विश्वविद्यालय, मोहाली का लक्ष्य भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) आधारित विकास, तकनीक-प्रथम अध्ययन और नवाचार का नया केंद्र बनाना है। मौजूदा समय में 90ठ से अधिक प्रैजुएट्स उभरते क्षेत्रों में नौकरी के योग्य नहीं माने जाते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए संस्थान का पाठ्यक्रम प्रत्यक्ष उद्योग अनुभव और कंपनियों के साथ थे।

आधारित है। यहां 50:50 शिक्षा मॉडल लागृ है, जिसमें शिक्षण स्टाफ़ और उद्योग विशेषज्ञ समान रूप से विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ़ रोजगार नहीं, बल्कि भविष्य के डिजिटल युग में नेतृत्व के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है। इस प्रेस सम्मेलन में एस. रशपाल सिंह ढालीवाल, संस्थापक कुलपति, सीजीसी विश्वविद्यालय, मोहाली, अर्श ढालीवाल, प्रबंध निदेशक डॉ. सुशील प्रशार, कार्यकारी निदेशक, डीसीपीडी साथ ही कॉपेरिट और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी उपस्थित रहे, जिनमें गगन अप्रवाल, लीडर शैक्षणिक साझेदारी, करियर शिक्षा, आईबीएम इंडिया, अमित चौधरी, तकनीकी निदेशक, केपीएमजी इंडिया, आनंद अखौरी, निदेशक, ईवाई इंडिया, आशुतोष कुमार, उपाध्यक्ष द्र विश्वविद्यालय संबंध एवं कौशल पहल, हर्ष छाबड़ा, प्रमुख, अधिगम एवं विकास, अहमद खालिद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इमार्टिकस लर्निंग आदि

## डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने आयोजित किया निवेशक

देहरादून, वीर संवाददाता। डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जिसे देश की अग्रणी एआई यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, लगातार अपने विद्यार्थियों और समाज को व्यावहारिक ज्ञान से सशक्त बनाने की दिशा में

इसी कडी में विश्वविद्यालय ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के सहयोग से मार्केट का विषय पर एक क्षेत्रीय निवेशक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया।

**Public Notice** 

IY client Smt. Sulochna Devi W/o Late Shadan Mohan, R/o H. No. 6, Plot No. 7, Galo. 37, B Block, Kaushik Enclave, Burar lorth Delhi-110084, has debarred an isowned her son Manish Prasad & his wife more ber all proveable and improved her son Manish Prasad & his wife. om her all moveable and immoveab operties due to their disrespectfue haviour and out of control of my client. My ient has also severed all their relations wit iem. If anybody deals with them, he/sh inent. In anybody deals with frient, riershe shall do so at his/her own risks, cost and consequences. My client and their family members shall not be liable or responsible for the same. Vipin Tripathi, Advocate, Ch. No. 225, Lawyer's Chamber Block, Rohini Court Complex, Delhi.

### कांग्रेस के हंगामे के बीच दूसरे दिन ही सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

गैरसैंण, वीर अर्जुन संवाददाता। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराडीसैंण में 19 अगस्त से शरू हुआ विधानसभा का मॉनसन सूत्र दूसरे दिन 20 अगस्त को ही निलंबन और कांग्रेस नेताओं पर लगे से अनिश्चितकाल के लिए स्थागत कर दिया गया है। विधानसभा मॉनसन सत्र का दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह की हंगामेदार रहा। विपक्ष अपनी मांगों पर अडा रहा। इसी बीच सरकार की ओर से 9 विधेयक और 5,315.89 करोड़ का अनुपूरक बजट पास करवा लिया गया है। पहले दिन सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद से जारी विपक्षी विधायकों का धरना रात को भी चला। आज सुबह भी विपक्ष का धरना जारी रहा। सरकार की लाख

कोशिशों के बावजद भी विपक्ष नहीं माना है। सरकार से विपक्षी तीन मांगें कर रहा था जिसमें जिला अधिकारी नैनीताल का तबादला, एसएसपी का

\*दमा वापसा शाामल ह सत्र के पहले दिन यानी मंगलवार को विधानसभा में 9 विधेयक पेश किए गए। जिनमें धर्मांतरण विरोधी विधेयक अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक और 5,315 करोड रुपए का अनुपुरक बजट भी शामिल है। वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने पंचायत चुनावों में कथित धांधली और बिगडती कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा किया, लेकिन उनके हंगामे के बीच बजट और विधेयक पेश किए गए।

पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, बांद्रा कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई–400051 पणाकृत कायालयः आइताआइताआइ वयर अवर जारा वर्षा ICICI Home Finance कॉर्पोरेट कार्या: आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर्स, जेबी नगर्, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई-40008 शाखा कार्यालयः शोरूम नं. 301, तीसरा तल, श्री राम आर्केड, ओल्ड निगम सं. 74, राजपुर रोड, देहरादून—248009 जैसा कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिक रवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूत हित अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12)

ार्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्जदारों को कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि ार्मुगतान करने के लिए एक मांग सूचना जारी की। कर्जदार राशि का पुनर्मुगतान करने में असफल रहे हैं इसलिए कर्जदार और आम जनता क एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित तिथि को कथित नियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धार . 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा अपने पास ले लिया है। विशेषकर कर्जदार और आम जनत को एतदृद्वारा कथित सम्पत्ति को कोई भी लेनदेन के लिए सचेत किया जाता है और कथित सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन आईसीआईसीआई होम जइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा। कर्जदारों का ध्यान प्रतिभुत परिसंपत्तियों को छडाने के के लिए उपलब्ध समय व

II	संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।				
क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम/ऋण खाता संख्या	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना में राशि रु.	शाखा का नाम	
	नवदेश (सह–कर्जदार),	खाता नं. 1097 खसरा नं. 2257 मौजा ईस्ट होप टाउन परगना पछवादून देहरादून देहरादून— देहरादून उत्तराखंड—248007 जो घिरी है. उत्तर: 18 फीट चौड़ी रोड/225 फीट, दक्षिण: अन्य की मूर्मि/22 5 फीट पूर्व: अन्य की मूर्मि/20 फीट, पश्चिम: अन्य की मूर्मि/20 फीट/कब्जे की तिथि: 18.08.2025	₹5. 6,24,858 / -	देहरादून	
2.	नवदेश (सह–कर्जदार),	खाता नं. 1097 खसरा नं. 2257 मौजा ईस्ट होप टाउन परगना पछवादून देहरादून देहरादून-देहरादून उत्तराखंड–248007 जो घिरी है: उत्तर: 18 फीट चौड़ी रोड/22.5 फीट, दक्षिण: अन्य की मूमि/22 5 फीट पूर्व: अन्य की मूमि/20 फीट, पश्चिम: अन्य की भूमि/20 फीट/कब्जे की तिथि: 18.08.2025	ক. 31,327.64 ∕ −	देहरादून	

उपरोक्त वर्णित कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) को एतद्द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है अन्यथा बंधक सम्पा को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 30 दिन बा बिक्री के लिए रखा जाएगा। दिनांकः २१ अगस्त, २०२५ स्थानः देहरादुन

पीरामल फाइनेंस लिमिटेड CIN: L65910MH1984PLC032639 Piramal पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 601, छठा तल, पीरामल अमिति बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमा जक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (वेस्ट), मुंबई—400070 फोन +91 22 3802 4000

ई-नीलामी बिक्री सूचना-नई बिक्री वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत कर्जदारों से बकाया राशि की वसूर्ल के लिए पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती पीरामल कैंपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने कब्जे में ली गर नीचे वर्णित परिसंपत्ति के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे दर्शाई गई अनुसार अचल संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है

शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. ३, दूसरा तल, गोविन्दपुरी, रानीपुर मोड हरिद्वार, उत्तराखंड—249407 गंपर्क व्यक्तिः 1. मनमीत कौर—9878409513, 2. दीपक रस्तोगी— 9927032403, 3. चंदन सखलकर—9820407168

ों कि ''जिसा है जहां हैं', ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी वहां है, आधार पर कब्जे में ली गई है। विवरण नीचे दिया गया हैः					
लोन कोड/शाखा/ कर्जदार/सह–कर्जदार /गारंटर	मांग सूचना तिथि एवं राशि	संपत्ति का पता– अंतिम		धरोहर जमा राशि (ईएमडी) (आरपी का 10 प्रतिशत)	(11.08.2025)
देहरादून (शाखा) कमल सिंह कर्जदार), विमल सिंह	33,39,773 / – (रु. तैंतीस लाख उनतालीस हजार	संपत्ति सीमा के सभी भाग एवं हिस्से—खाता नं. 507 केएचए नं. 2378/2 एनए मौजा ईटन बाग मौजा ईटन बाग पीजीएन—पछवादून देहरादून उत्तराखंड आईएन—248001	20,20,000 / -	(रु. दो लाख बीस हजार मात्र)	

ई—नीलामी की तिथिः 23.09.2025, प्रातः 11.00 बजे से दोप. 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 22.09.2025 को सायं 4.00 बजे तक

बेक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया <u>www.piramalfinance.com/e-Auction.html</u> पर दिये गये लिंक को देखें या ह piramal.auction@piramal.com पर ई—मेल करें।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक 30 दिन बिक्री सूचना परोक्त वर्णित कर्जदार / गारंटर को धारा 13(2) के तहत एतदद्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व तिथि तक उपार्जित ब्याज के साथ उपरोक्त वर्णित पर्ण भगर करने की सूचना दी जाती है और ऐसा नहीं करने पर संपत्ति को कर्जदार∕गारंटर से ब्याज एंव लागत की वसूली के लिए उपरोक्त वर्णित संपत्ति नीलामी / बिक्री कर इसे वसूला जाएगा। कर्जदार का ध्यान प्रतिभृत परिसंपत्ति के विमोचन के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के संदर्भ में उपलब्ध समय की ओर आकृष्ट किया जात

है। कर्जदार को विशेष रूप से और आम जनता कृपया ध्यान दें कि यदि किसी कारणवश यह निर्धारित नीलामी असफल रहती है तो प्रतिभूत लेनदार निर्ज संधि के माध्यम से इसकी प्रतिभूति सुरक्षा लागू कर सकते हैं। तिथिः 21 अगस्त, 2025 हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी थानः उत्तराखंड

पीरामल फाइनेंस वि

### संक्षिप्त समाचार

#### सीएम व स्पीकर ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण



देहरादुन, वीर अर्जुन संवाददाता। मुख्यमंत्री पृष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋत् खंडूडी भूषण ने गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में "ऋ पेड़ माँ के ट्रह्न्ह्न अभियान के तहत पौधा रोपण किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव आर के सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ और प्रमुख वन संरक्षक हॉफ समीर सिन्हा ने भी इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा रोपण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि हर नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएँ। उन्होंने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और आने वाली पीढियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

#### टीएचडीसीआईएल ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया

ऋषिकेश, वीर अर्जुन संवाददाता। पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतरता प्रदान करते हए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख मिनी रत्न उद्यम, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने अपने एनसीआर कार्यालय, कौशांबी, गाजियाबाद में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन टीएचडीसीआईएल की मुख्य सतर्कता अधिकारी (आईआरएस) रश्मिता झा द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर, मुख्य सतर्कता अधिकारी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। उन्होंने समाज के हर स्तर पर जागरूकता पैदा करने के महत्व पर प्रकाश डाला साथ ही उन्होंने बताया कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025 के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम सभाओं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, टीएचडीसी के परियोजना स्थलों, बस स्टेशनों, गंगा घाटों और मुख्य बाजारों में "द्धद्वय्द्वह्न हमारी साझा डुह्रऋद्वद्व" विषय पर व्यापक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। इस कार्यक्रम में श्री नीरज वर्मा, कार्यपालक निदेशक (एनसीआर कार्यालय), एस.के.आर्य, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग, ऋषिकेश के अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में टीएचडीसीआईएल के विभिन्न गरियोजनाओं एवं कार्यालयों में तैनात सतर्कता विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की इक्विटी में एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी है।

#### 170 किमी की टनकपुर-बागेश्वर रेलवे लाइन का सर्वे पुरा, डीपीआर तैयार: केंद्रीय रेल मंत्री

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता: केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोक सभा में नैनीताल के सांसद अजय भट्ट द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन को सुचित किया कि टनकपुर-बागेश्वर नई लाइन (170 कि.मी.) के लिए फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की लागत 48,692 करोड रूपए आंकी गई है। इस गरियोजना में यातायात संभावनाएं कम हैं। रेल मंत्रालय ने बताया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद, परियोजना की स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से आवश्यक अनुमोदन अपेक्षित होते हैं। कि परियोजनाएं स्वीकृत करना सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है। श्री अश्विनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में रेल अवसंरचना के लिए बजट आवंटन लगभग 25 गुना बढ़ा है। 2009दृ14 में ?187 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़कर 2025द26 में ?4,641 करोड़ बजट हो गया है। 01 अप्रैल 2025 तक, राज्य में 216 किलोमीटर लंबाई की तीन नई रेल लाइनों को ?40.384 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया है। रेल मंत्रालय के

# **UTTAM** Sugar

#### उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः ग्राम लिब्बरहेड़ी, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड — 247667 टेलीफोनः 0120 — 4525000, वेबसाइटः www.uttamsugar.in, ई–मेल आईडीः investorrelation@uttamsugar.in

शेयरघारकों के लिए 30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन एतदद्वारा सृष्टित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 30वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को दोगहर 12:00 बजे वीडियो कोंन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम की सूधना में निर्धारित व्यवसाय (व्यवसायों) को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी, जिसे एजीएम आयोजन के लिए प्रसारित किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा 05 मई, 2020 के अपने सामान्य परिपन्न संख्या 20 / 2020 और इस संबंध में जारी अन्य परिपन्न (त्री) और नवीनतम सामान्य परिपन्न संख्या के 9/ 2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और संबंध में जारी अन्य परिपन्न संख्या के माध्यम से प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए संबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 ('संबी परिपन्न') (एमसीए परिपन्न और संबी परिपन्न, जिन्हें सामूहिक रूप से परिपन्न कहा गया है) ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दे दी है और बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम), संबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') और परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 30वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सचना उन सभी

शेयरशारकों को भेजो जाएगी जिनकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिऑजिंटरी प्रतिमार्थी / रिजस्ट्रा और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार एजीएम की सूचना एवम वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए वेब-लिंक प्रदान करने के लिए एक पत्र, सटीक विधि सहित, उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्होंने कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों / आरटीए वे पास ई—मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। शेयरचारक घ्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी <u>www.uttamsugar.in</u> और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdi.com पर भी उपलब्ध होगी। कंपनी सदस्यों के अनुरोघ पर नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भी उपलब्ध कराएगी। सदस्य कंपनी से <u>investorrelation@uttamsugar.in</u> पर अनुरोघ कर सकते हैं। शेयरुघारक केवल बीसी/ओएयीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी/ओएबीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले शेयरचारकों को कोरम की गणना के उद्देश्य से

वोटिंग करने की विधि

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 के प्रावधान क्यमा (प्रकार कोर असाता) नायन, द्वारा के पाया है। के सहपवित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सभी शेयरकारकों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली ('ई-वोटिंग') के माध्यम से वोटिंग करने की सुविधा भी प्रदान कर रही है। वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग /ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की विरुत्त प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी जा रही है।

ई-मेल पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका

यदि भौतिक रूप में शेयरवारक सदस्यों ने कंपनी / आरटीए के साथ अपने ईमेल पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, तब उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को <u>investorrelation@uttamsugar.in</u> पर और आस्टीए को delhi@in.mpms.mufg.com पर लिखकर अपने ईमेल पंजीकृत/अपडेट कर लें। इसके अतिरिक्त, इस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो संख्या, पता, फॉर्म आईएसआर–1 (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध), पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति और आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/योटर आईडी / पासपोर्ट आदि की स्वतः सत्यापित प्रति भी शामिल करें।

डीमैट रूप में शेयरधारक सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के

सदस्य कृपया ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 2.50 रुपये प्रति इविचटी शेयर अर्थात अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत की दर से अंतिम लामांश की अनुशंसा की है, जो 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमीदन के अधीन है। यदि लामांश घोषिल किया जाता है, तो इसका मुगतान रिजयें कैंक द्वारा स्वीकृत इनेक्ट्रॉनिक मोड के माज्यम से उन शेयरबारकों को किया जाएगा जिन्होंने कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट / डियॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने बैंक खाते का वियरण अपडेट कर लिया है। अंतिम लाभांश के लिए पात्र सदस्यों के नाम निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 12

यदि सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकत / अपडेट नहीं किया है. तो कपया अपने संबंधित डीपी द्वार बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में विवरण पंजीकृत / अपडेट कर लें

उपरोक्त मामले पर अधिक जानकारी /स्पष्टीकरण के लिए, सदस्य कंपनी /कंपनी के आरटीए को उनव गंबंधित पते ∕ ई—मेल पर भी लिख सकते हैं।

कृते उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड हस्ता/

(राजेश गर्ग) (राजेश गर्ग) कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (सदस्यता संख्या एफसीएस–5841) दिनांकः 21 अगस्त, 2025

8CM X 19CK